

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय- हिंदी

कक्षा - आठवीं

Assignment अप्रैल -2021-22

प्रश्न-1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

जब मैं वैयक्तिक और सामाजिक व्यवहार में अपनी भाषा के प्रयोग पर बल देता हूँ तब निश्चय ही मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति को दूसरी अथवा विदेशी भाषाएँ सीखनी नहीं चाहिए । नहीं, आवश्यकता, अनुकूलता और शक्ति के अनुसार अनेक भाषाएँ सीखनी चाहिए तथा उनमें से एकाधिक में विशेष दक्षता भी प्राप्त करनी चाहिए, द्वेष किसी भी भाषा से नहीं करना चाहिए; क्योंकि किसी भी प्रकार के ज्ञान की उपेक्षा करना उचित नहीं है; किंतु प्रधानता सदैव अपनी ही भाषा और अपने साहित्य को देना चाहिए । अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने देश का सच्चा विकास और कल्याण केवल अपनी भाषा के व्यवहार द्वारा ही संभव है. ध्यान रखिए ज्ञान-विज्ञान, धर्म-राजनीति तथा लोक व्यवहार के लिए सदा लोक भाषा का प्रयोग ही अभीष्ट है । अपने देश, अपने समाज और अपनी भाषा की सेवा तथा वृद्धि करना सभी तरह से हमारा परम कर्तव्य है ।

1. दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए ।
2. अपनी भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाएँ क्यों सीखनी चाहिए ?
3. तुलनात्मक रूप में अपनी भाषा को महत्त्व क्यों दिया जाना चाहिए ?
4. 'दक्षता' का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए ।
5. अपने देश और संस्कृति का विकास किस प्रकार संभव है ?

प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

1. 'ध्वनि' कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए ।
2. मामा के गाँव जाने पर लेखक सबसे पहले बदलू से मिलने के लिए क्यों जाता था ?
3. बस को वृद्धा क्यों कहा गया है ? 'बस की यात्रा' पाठ के आधार पर लिखिए ।

प्रश्न- 3 निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

- क) निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित कारक का भेद लिखिए-
रेलगाड़ी सही समय पर स्टेशन से छूटी ।

- ख) निम्नलिखित वाक्य में वचन बदलकर उसे दोबारा लिखें –
लड़का मैदान में दौड़ रहा है ।
- ग) निम्नलिखित वाक्य में लिंग परिवर्तन करके वाक्य दोबारा लिखें-
आयुष्मान भव !
- घ) दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए- युवा , गरीब
- ङ) निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम शब्द रेखांकित करके उसका भेद लिखिए-
किसके साथ दिल्ली जा रहे हो ?
- च) निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द रेखांकित करके उसका भेद लिखिए-
केक में चीनी कम है ।

प्रश्न-4 ' कोरोना काल' विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए ।